

प्रत्यायन के लिए मानदंड

## योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (कोर्स कोड: 823-832)

योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन के लिए किसी संस्थान को प्रत्यायन हेतु निम्नांकित मापदंडों को पूरा करना चाहिए:

- पंजीकरण सोसायटी अधिनियम के तहत तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत हुए हों।
- संस्थान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय का संचालन अनिवार्य रूप से कर रहा हो।
- ओपीडी का यथोचित संचालन हो और संबन्धित पाठ्यक्रमों को संचालित करने में सक्षम हो।
- संस्थान में निम्नलिखित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मौजूद हों :

### (ए) आवश्यक मूलभूत सुविधाएं:

#### i. योग शिक्षण-प्रशिक्षण कक्ष/ योग हॉल

25 छात्रों को समायोजित करने हेतु, एक योग शिक्षण प्रशिक्षण कक्ष और अभ्यास के लिए न्यूनतम 750 वर्ग फुट क्षेत्रफल का एक योग हॉल हो। इनमें ब्लैक बोर्ड / व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। योग कक्ष एवं योग हॉल हवादार, साफ-सुथरा, प्रकाशमय हो। योग कक्ष एवं योग हॉल दोनों एक में योग शिक्षण प्रशिक्षण कक्ष/हॉल के रूप में भी हो सकते हैं।

#### ii. आउटडोर रोगी विभाग (ओपीडी) सुविधा

चिकित्सालय में ओपीडी की बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें निम्नांकित सम्मिलित है:

- स्वागत कक्ष और रोगियों को बैठने की समुचित व्यवस्था; कार्यालय के लिए शैक्षणिक उपकरण (कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रिंटर, फोटोकॉपीअर (वैकल्पिक), प्रोजेक्टर आदि)
- चिकित्सक कक्ष; चिकित्सक कक्ष में आवश्यक सुविधाओं जैसे: थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप (stethoscope), बी पी इन्स्ट्रूमेंट आदि के साथ बैठने व रोगियों को देखने की समुचित व्यवस्था हो।
- योग उपचार कक्ष; रोगी के उपचार हेतु योग उपचार कक्ष में पेसेन्ट टेबिल व योग मेट की व्यवस्था हो।

#### iii. योग अभ्यास के लिए आवश्यक उपकरण तथा सुविधाएं

- षट्कर्म के अभ्यास हेतु आवश्यक सुविधाएं जैसे - रबर नेति, सूत्र नेति, नेति लोटा, जल के लिए पात्र, त्राटक के लिए स्टैंड्स, मोमबत्तियां, धौंति के लिए धौंति वस्त्र और गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक केटल आदि।
- योग अभ्यास के लिए बैच के अनुरूप योगा मेट्स/दरी आदि।
- योग शिक्षण-प्रशिक्षण कक्ष/ योग हॉल मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान और योग से संबन्धित चार्ट या पोस्टर्स से सुसज्जित |
- संस्था में योग से संबंधित प्रतिष्ठित लेखकों की कम से कम 150 किताबें जैसे- योग दर्शन, सांख्य दर्शन, श्रीमद्भगवद् गीता, पातांजल योग दर्शन, घेरण्ड संहिता, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, हठयोग प्रदीपिका आदि, आधुनिक योग लेखकों की, योग के विश्वविद्यालयों व संस्थाओं की अन्य संबंधित पुस्तकें तथा लेख/पत्रिकाएं आदि होनी चाहिए।
- जनसुविधाओं की उचित व्यवस्था

**(बी) संकाय और सहायक स्टाफ**

संकाय और सहायक स्टाफ	शैक्षिक/प्रोफेशनल योग्यता	सं०
समन्वयक	स्नातक	01
सिद्धान्त के लिए योग शिक्षक /प्रवक्ता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से योग में मास्टर डिग्री (Including Yoga Therapy)	01
योग चिकित्सक	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातक डिग्री/बीवाईएन/बीएनवाईएस अथवा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा (डीएनवाईएस)/योग चिकित्सा में पी जी डिप्लोमा और संबन्धित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव	01
प्राॅक्टिकल अभ्यास के लिए योग प्रशिक्षक/थिरेपिस्ट	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से योग में मास्टर डिग्री अथवा बीवाईएन अथवा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान में डिप्लोमा (डीएनवाईएस)/योग विज्ञान में डिप्लोमा (डी वॉई एस) और 1 वर्ष का अनुभव	01
एक प्राॅक्टिकल-प्रशिक्षण सहायक	बारहवीं पास अथवा दसवीं पास दो वर्ष के अनुभव के साथ	01
रिसेप्शनिस्ट/क्लर्क/कार्यालय सहायक	जॉब संबन्धित	01
एमटीएस	जॉब संबन्धित	01

(नोट; 1.NIOS के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों पर पहले से ही उक्त सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण, इन केन्द्रों की मांग पर, NIOS द्वारा एक पाठ्यक्रम का प्रत्यायन शुल्क प्राप्त कर, इन्हें सीधे प्रत्यायित किया जा सकता है।

2.भविष्य में समिति ऐसे प्रतिष्ठित योग और प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्रों की सूची तैयार करेगी, जिनके ट्रेनीज NIOS के योग और प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में एडमीशन और जॉब के लिए मान्य किए जा सकेंगे)

**बैच आकार**

एक बैच में अधिकतम 25 छात्र लिए जा सकते हैं, और संस्थान को उसकी मूलभूत सुविधाओं के आधार पर अधिकतम चार बैच चलाने की स्वीकृति दी जा सकती है।

\*\*\*\*\*